




(imageless edition)

✎ Ingrid Schechter
🔒 Ingrid Schechter
📄 Nandani
🗣️ Hindi / Chinese (Mandarin)
📖 Level 2



दिनागी और उसकी गायें
丁吉和奶牛



香港故事書

global-asp.github.io/storybooks-hongkong

दिनागी और उसकी गायें / 丁吉和奶牛

Written by: Ingrid Schechter

Illustrated by: Ingrid Schechter

Translated by: Nandani (hi), Vicky Liu (zh)


This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by 香港故事書 in an effort to provide children's stories in 香港's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 3.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



टिनिगी अपनी दादी माँ के साथ रहता था।


...


丁吉和奶奶住在一起。

丁吉以前常常和奶奶一起照看奶牛。

...

वह उनके साथ गाधों की देख-भाल करता था।





एक दिन सिपाही आए।


...

有一天，村裡來了士兵。

他們悄悄地爬回家。

...


वे चुपचाप अपने घर चले गए।




他們把奶牛帶走了。

...

वे अपने साथ गायों को ले गए।






टिनीगी और उसकी दादी माँ भागे और छुप गए।

...

丁吉和奶奶逃離了村莊，躲了起來。



सुरक्षित समय पर टिनीगी और उसकी दादी माँ बाहर निकल आए।

...

丁吉和奶奶直到安全了才走出來。

उन्में से एक सिपाही ने उसके ऊपर धेर रख दिया, लेकिन वह चुप
रहा।


...

有個士兵踩到了丁吉藏身的樹葉，但是丁吉沒有吱
聲。

वे रात तक झाड़ियों में छिपे रहे।

...


他們白天躲在樹叢裡。



वे सिपाही फिर से वापस आ गए।

...

士兵們又回來了。



दादी माँ ने टिनीगी को पत्तों के नीचे छिपा दिया।

...

奶奶把丁吉藏在樹葉底下。